



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 1978/कार्तिक 12, 1900

No. 210] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 1978/KARTIKA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 79-आई टी सी [पी एन]/78

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1978

विषय.—स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना

सं. 12/4/78-ई. पी. सी.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 62-आई. टी. सी.  
[पी. एन.]/78 दिनांक 19 अगस्त, 1978 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह  
दिया गया था कि, आगे आदेश होने तक स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना के

अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिहाई आवेश धारकों को सोना जिस कीमत पर बेचा जाएगा वह शुद्ध सोने की [1.000 उत्कर्ष शुद्धता] 580.00 रुपये प्रति 10 ग्राम होगी, इसमें इस पर लागू कोई भी स्थानीय कर शामिल नहीं है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 30 नवम्बर, 1978 को या इससे पहले रिहाई आवेश धारकों को जिस कीमत पर सोना बेचा जाएगा वह शुद्ध सोने की [1.000 उत्कर्ष शुद्धता] 645 रुपये [छ: सौ पैंतालीस रुपये मात्र] प्रति 10 ग्राम होगी, इसमें, इस पर लागू कोई भी स्थानीय कर शामिल नहीं है।

का. वें. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

# MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 79-ITC(PN)/78

New Delhi, the 3rd November, 1978

Subject : Gold Jewellery Export Replenishment Scheme

**No. 12/4/78/EPC.**—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 62-ITC(PN)/78, dated the 19th August, 1978, in which it was provided that, until further orders, the price at which the gold will be sold to the Release Order-holders by the State Bank of India under the Gold Jewellery Export Replenishment Scheme would be Rs. 580.00 per 10 grammes of pure gold (1.000 fineness), exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it is hereby notified that the price at which gold will be sold on or before the 30th November, 1978 to the Release Order-holders by the State Bank of India would be Rs. 645.00 (Rupees six hundred and forty five only) per 10 grammes of pure gold (1.000 fineness), exclusive of any local taxes applicable thereto.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports